

## IASbaba Integrated Revision Programme, 2020 – Day 5 Polity

### Q.1) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम ने परिषद में कार्य संचालन को अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए नियम और आदेश बनाने की शक्तियां प्रदान कर वायसराय को सशक्त बनाया।
2. भारत सरकार अधिनियम 1919 में लोक सेवा आयोग की स्थापना के लिए प्रावधान प्रदान किया गया था।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है / हैं?

- a) केवल 1
- b) केवल 2
- c) दोनों 1 और 2
- d) न तो 1 और न ही 2

### Q.1) Solution (d)

1861 के भारतीय परिषद अधिनियम ने परिषद में कार्य संचालन को अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए नियम और आदेश बनाने की शक्तियां प्रदान कर वायसराय को सशक्त बनाया।

इसने 1859 में लॉर्ड कैनिंग द्वारा आरंभ की गई 'पोर्टफोलियो' प्रणाली को भी मान्यता प्रदान की। इसके तहत वायसराय की परिषद के एक सदस्य को सरकार के एक या एक से अधिक विभागों का प्रभारी बनाया गया था तथा उसे अपनी ओर से उनके विभाग के मामलों पर अंतिम आदेश जारी करने के लिए अधिकृत किया गया था।

इसलिए कथन 1 सही है।

भारत सरकार अधिनियम 1919 में लोक सेवा आयोग की स्थापना के लिए प्रावधान प्रदान किया गया था। इसलिए, 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए एक केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी।

इसलिए कथन 2 सही है।

### Q.2) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. सांप्रदायिक पुरस्कार ने सिक्खों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल विस्तारित किया।
2. भारत सरकार अधिनियम 1935 ने, प्रांतों में द्वैधशासन को समाप्त कर दिया।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है / हैं?

- a) केवल 1
- b) केवल 2
- c) दोनों 1 और 2
- d) न तो 1 और न ही 2

### Q.2) Solution (b)

सांप्रदायिक पुरस्कार ने न केवल मुसलमानों, सिक्खों, भारतीय ईसाइयों, एंग्लो-इंडियन और यूरोपीय लोगों के लिए पृथक-पृथक निर्वाचन मंडलों को जारी रखा, बल्कि इसे दलित वर्गों (अनुसूचित जातियों) तक भी विस्तारित किया।

इसलिए कथन 1 गलत है।

भारत सरकार अधिनियम 1935 ने, प्रांतों में द्वैधशासन को समाप्त कर दिया तथा इसके स्थान पर 'प्रांतीय स्वायत्तता' की शुरुआत की।

इसलिए कथन 2 सही है।



### Q.3) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. जब भी संविधान सभा, विधायी निकाय के रूप में मिलती थी, इसकी अध्यक्षता डॉ.राजेन्द्र प्रसाद द्वारा की गयी।
2. संविधान सभा ने डॉ.राजेन्द्र प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति चुना था।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है / हैं?

- a) केवल 1
- b) केवल 2
- c) दोनों 1 और 2
- d) न तो 1 और न ही 2

### Q.3) Solution (b)

जब भी संविधान सभा की बैठक संविधान निर्माता सभा के रूप में हुई तो इसकी अध्यक्षता डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने की तथा जब यह विधायी निकाय के रूप में मिली, तो इसकी अध्यक्षता जी.वी. मावलंकर द्वारा की गयी थी। संविधान सभा 26 नवंबर, 1949 तक इन दोनों रूपों में कार्य करती रही।

इसलिए कथन 1 गलत है।

संविधान सभा ने डॉ. राजेंद्र प्रसाद को 24 जनवरी 1950 को भारत का पहला राष्ट्रपति चुना था।

इसलिए कथन 2 सही है।

### Q.4) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. सिंह (Lion) को संविधान सभा के प्रतीक (मुहर) के रूप में अपनाया गया था।
2. बी.एन. राव को संविधान सभा के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है / हैं?

- a) केवल 1
- b) केवल 2
- c) दोनों 1 और 2
- d) न तो 1 और न ही 2

### Q.4) Solution (c)

हाथी (Elephant) को संविधान सभा के प्रतीक (मुहर) के रूप में अपनाया गया था।

इसलिए कथन 1 गलत है।


बी.एन. राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया।

एच.वी.आर. आयंगर संविधान सभा के सचिव थे।

इसलिए कथन 2 गलत है।

### Q.5) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. संविधान अंग्रेजी भाषा में किए गए संविधान के प्रत्येक संशोधन के हिंदी भाषा में अनुवाद के लिए प्रावधान प्रदान करता है।
2. ग्रेनविले ऑस्टिन द्वारा भारतीय संघवाद को सौदेबाजी युक्त संघवाद (bargaining federalism) के रूप में वर्णित किया गया है।



ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है / हैं?

- केवल 1
- केवल 2
- दोनों 1 और 2
- न तो 1 और न ही 2

### Q.5) Solution (a)

संविधान में अनुच्छेद 394-ए के तहत, अंग्रेजी भाषा में किए गए इस संविधान के प्रत्येक संशोधन का हिंदी भाषा में अनुवाद प्रदान करने का प्रावधान है।

इसलिए कथन 1 सही है।

मॉरिस जोन्स द्वारा भारतीय संघवाद को सौदेबाजी युक्त संघवाद (bargaining federalism) के रूप में वर्णित किया गया है।

इसलिए कथन 2 गलत है।

### Q.6) भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

- प्रस्तावना और संविधान के एक विशिष्ट प्रावधान के बीच संघर्ष की स्थिति में उत्तराद्ध प्रबल होगा।
- इसे उच्चतम न्यायालय द्वारा एलआईसी ऑफ इंडिया वाद में कहा गया कि यह संविधान का भाग नहीं है।

उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है / हैं?

- केवल 1
- केवल 2
- दोनों 1 और 2
- न तो 1 और न ही 2

### Q.6) Solution (a)

प्रस्तावना संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को अधिरोहित नहीं कर सकती है। दोनों के बीच किसी भी संघर्ष की स्थिति में, उत्तराद्ध प्रबल होगा।

इसलिए कथन 1 सही है।

बेरुबरी यूनियन मामले (1960) में, उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है।

केशवानंद भारती मामले (1973) में, उच्चतम न्यायालय ने पूर्व विचार को खारिज कर दिया तथा कहा कि प्रस्तावना संविधान का एक हिस्सा है।

LIC ऑफ इंडिया वाद (1995) में भी उच्चतम न्यायालय ने फिर से कहा कि प्रस्तावना संविधान की अभिन्न अंग है।


इसलिए कथन 2 गलत है।

### Q.7) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

- दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का हिस्सा होते हैं।
- दिल्ली और पुदुचेरी, केवल दो ऐसे केंद्र शासित प्रदेश जहाँ विधानसभाएं हैं।

उपरोक्त में से कौन सा कथन असत्य है?

- केवल 1
- केवल 2



## IASbaba Integrated Revision Programme, 2020 – Day 5 Polity

- c) दोनों 1 और 2
- d) न तो 1 और न ही 2

### Q.7) Solution (c)

संसद के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य, उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का गठन करते हैं

इसलिए कथन 1 गलत है।

दिल्ली, पुडुचेरी तथा जम्मू और कश्मीर तीन ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनमें विधानसभाएं हैं।

इसलिए कथन 2 गलत है।

### Q.8) भारत के संघ और क्षेत्रों के बारे में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।

1. भारत संघ (Union of India) में केवल राज्य शामिल हैं।
2. सीमा विवाद के निपटारे के लिए संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता है।
3. आंध्र प्रदेश, भारत में भाषाई आधार पर बनाया जाने वाला पहला राज्य है।

दिए गए कथनों में से कौन सा सही है / हैं?

- a) केवल 1
- b) केवल 2 और 3
- c) केवल 1 और 3
- d) केवल 3

### Q.8) Solution (c)

भारत संघ में वे राज्य शामिल हैं जो केंद्र के साथ संघीय शक्तियाँ साझा करते हैं।

इसलिए कथन 1 सही है।

उच्चतम न्यायालय ने 1969 में निर्णय सुनाया कि, भारत और अन्य देशों के बीच सीमा विवाद के निपटारे के लिए संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता नहीं है।

इसलिए कथन 2 गलत है।

आंध्र प्रदेश भारत में भाषाई आधार पर निर्मित होने वाला पहला राज्य है।


इसलिए कथन 3 सही है।

### Q.9) निम्नलिखित में से कौन सा वंचन (Deprivation), भारतीय नागरिकता खोने का कारण नहीं है?

- a) नागरिक ने धोखाधड़ी करके नागरिकता प्राप्त की है।
- b) नागरिक ने भारत के संविधान के प्रति अनिष्ठा दिखाई है।
- c) नागरिक स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त करता है।
- d) नागरिक सात वर्षों से लगातार भारत से बाहर रह रहा है।

### Q.9) Solution (c)

समाप्ति के द्वारा (By Termination): जब एक भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है, तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है।



इसलिए कथन C गलत है।

**Q.10)** नागरिकता के संवैधानिक प्रावधानों के बारे में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. भारतीय संविधान का भाग II नागरिकता से संबंधित है।
2. नागरिकता से संबंधित बनाए गए किसी भी कानून को संवैधानिक संशोधन माना जाता है।

उपरोक्त में से कौन सा कथन असत्य है?

- a) केवल 1
- b) केवल 2
- c) दोनों 1 और 2
- d) न तो 1 और न ही 2

**Q.10) Solution (b)**

भारतीय संविधान का भाग II नागरिकता से संबंधित है।

इसलिए कथन 1 सही है

संसद द्वारा नागरिकता के संबंध में बनाए गए कानूनों को संवैधानिक संशोधन नहीं माना जाता है।

इसलिए कथन 2 गलत है

**Q.1)** 'ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क' निम्नलिखित में से किन घाटियों में विस्तारित है

1. शिव घाटी (Shiva Valley)
2. सैंज घाटी (Sainj Valley)
3. जीवा नाल घाटी (Jiwa Nal Valley)
4. तीर्थन घाटी (Tirthan Valley)
5. पार्वती घाटी (Parvati Valley)

सही कूट का चयन करें:

- a) 1, 2, 3 और 4
- b) 2, 3, 4 और 5
- c) 1, 3, 4 और 4
- d) 1, 2, 4 और 5

**Q.1) Solution (b)**

ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क (कुल्लू, हिमाचल प्रदेश) चार घाटियों-सैंज घाटी, जीवा नाल घाटी, तीर्थन घाटी और पार्वती घाटी में फैला हुआ है।

Please go through the article and make note of new words you come across (Gunehar Art Village, Gaddis Community etc.) - <https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1631176>

**Q.2)** कुटुमसर गुफाएं (Kotumsar caves), जो गुफाओं की सबसे बड़ी श्रृंखला हैं, मेघालय के बाद कहाँ स्थित हैं?

- a) छत्तीसगढ़
- b) मध्य प्रदेश
- c) महाराष्ट्र

d) उत्तराखंड

**Q.2) Solution (a)**

कुटुमसर गुफाएँ, जो मेघालय के बाद छत्तीसगढ़ में गुफाओं की सबसे बड़ी श्रृंखला हैं।

**Source (Please go through the article and make note of new words you come across):**

<https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1630698>

**Q.3) 'सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान' के संबंध में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।**

1. यह मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में विस्तारित है।
2. यह भारत का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जहाँ पैदल चलते हुए सफारी (walking safari) की अनुमति है।

सही कथनों का चयन करें

- a) केवल 1
- b) केवल 2
- c) दोनों 1 और 2
- d) न तो 1 और न ही 2

**Q.3) Solution (b)**

सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, जो भारत का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जहाँ पैदल चलते हुए सफारी (walking safari) की अनुमति है।

**Source (Please go through the article and make note of new words you come across):**

<https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1630243>

**Q.4) 'देशवाली बेल्ट' (Deswali Belt) और 'बागड़ी बेल्ट' (Bagari Belt) की चर्चा, निम्नलिखित में से किस राज्य के संदर्भ में की जाती है?**

- a) उत्तर प्रदेश
- b) मध्य प्रदेश
- c) हरियाणा
- d) गुजरात

**Q.4) Solution (c)**

हरियाणा को दो भागों में बांटा गया है, देशवाली बेल्ट और बागड़ी बेल्ट।


हरियाणा के लोक नृत्य घंगोर, झूमर, छाती (Chhati) हैं।

**Source (Please go through the article and make note of new words you come across):**

<https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1629134>

**Q.5) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें**

1. अकेले कच्छ का रण भारत की कुल नमक आपूर्ति का तीन-चौथाई उत्पादन करता है।
2. कच्छ के मैंग्रोव संसार के एकमात्र अंतर्देशीय मैंग्रोव होने के लिए जाने जाते हैं।



सही कथनों का चयन करें

- a) केवल 1
- b) केवल 2
- c) दोनों 1 और 2
- d) न तो 1 और न ही 2

### Q.5) Solution (c)

कच्छ लवणीय मरुस्थल, घास के मैदान और मैंग्रोव की भूमि है। दिलचस्प बात यह है कि यहां के मैंग्रोव संसार के एकमात्र अंतर्देशीय मैंग्रोव होने की एक अद्भुत घटना के लिए जाने जाते हैं। अकेले कच्छ का रण भारत की कुल नमक आपूर्ति का तीन-चौथाई उत्पादन करता है। यह स्थान ऊंट की खैरी नस्ल का घर भी है, जिसमें सूखी जमीन के साथ-साथ खारे पानी में भी जीवित रहने की विशेष क्षमता होती है। वे समुद्र के पानी में तैर भी सकते हैं तथा खारे पानी और पौधों पर भोजन कर सकते हैं। वे मरुस्थल की चरम जलवायु और पानी के उच्च लवणता के लिए अच्छी तरह से अनुकूलित हैं।

**Source (Please go through the article and make note of new words you come across):**

<https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1628269>

